



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1745]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2009/कार्तिक 5, 1931

No. 1745]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2009/KARTIKA 5, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2707(अ).—यतः, मै. इंडियाबुल्ज इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो महाराष्ट्र राज्य में एक निजी संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य में ग्राम मुसलगाँव और गुलवन्च, तालुक सिन्नार, जिला नासिक में एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 25 जून, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में :—

(i) केन्द्र सरकार, एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य में ग्राम मुसलगाँव और गुलवन्च, तालुक सिन्नार, जिला नासिक में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या/गट नं. और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या/गट नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुसलगाँव	969 भाग	4.09
2.		971 भाग	3.52
3.		972	1.12
4.		973	2.04

5.		974 भाग	3.34
6.		975	5.49
7.		976	1.53
8.		977 भाग	1.61
9.		979	2.87
10.		981	4.58
11.		982	4.20
12.		984 भाग	2.90
13.		985	2.22
14.		987	4.96
15.		989	25.84
16.		990	13.84
17.		991	6.83
18.		992	5.66
19.		993	7.33
20.		994/1	1.60
21.		994/2	1.59
22.		995	17.27
23.		996	17.88
24.		997	5.08
25.		998 भाग	0.47
26.		1007	9.71
27.		1008	15.93
28.		1009	5.83
29.		1010	5.47
30.		1013	26.71
31.		1014/1	1.90
32.		1014/2	1.90
33.		1014/3	1.90
34.		1014/4	1.88
35.		1015	3.56
36.		1016	2.97
37.		1017	3.39
38.		1018	3.39
39.		1019 भाग	2.67
40.		1020	3.93
41.		1021	0.89
42.		1022	0.88
43.		1023	0.81
44.		1024	4.17
45.		1026	1.73

46.		1027	1.51
47.		1028	1.91
48.		1029	4.14
49.		1030	2.89
50.		1031	1.42
51.		1032	1.38
52.		1033	0.85
53.		1034	1.21
54.		1035	4.42
55.		1036 भाग	4.14
56.		1037	1.76
57.		1038	1.63
58.		1039 भाग	8.69
59.		1040	7.72
60.		1041 भाग	2.51
61.		1054	16.87
62.		1060 भाग	1.65
63.		1062	15.68
64.		1069	6.74
65.	गुलवन्च	656	3.58
66.		658	3.55
67.		659	10.09
68.		660	15.33
69.		661	12.69
70.		682	2.14
71.		683	3.66
72.		684	1.09
73.		685	2.55
74.		686	3.52
75.		688	17.59
76.		702 भाग	14.81
77.		703	12.18
78.		704	10.86
79.		705	5.14
80.		706	8.80
81.		707 भाग	6.90
82.		708	15.10
83.		709	7.09
84.		710	14.47
85.		711	2.52
86.		712	7.44

87.		713	4.61
88.		714	0.84
89.		715	3.21
90.		716	4.05
91.		717	3.31
92.		718 भाग	4.34
93.		719	3.54
94.		720	3.88
95.		721	11.57
96.		722	1.22
97.		723	1.24
98.		725	2.15
99.		726	2.54
100.		727	0.14
101.		729	1.51
102.		730	1.41
103.		731	1.56
104.		733	10.89
105.		742	6.11
106.		745 भाग	2.07
107.		746 भाग	3.82
108.		766	1.46
109.		853	1.52
110.		854	0.42
111.		855	3.36
112.		856	0.14
113.		857 भाग	5.24
114.		859	4.34
115.		860	3.04
116.		861	3.28
117.		862	3.09
118.		863	2.46
119.		864	3.16
120.		865	1.22
121.		866	1.15
122.		867	3.25
123.		868	4.26
124.		869	8.35
125.		870	7.62
126.		871	0.51
127.		872	0.58

128.		873	1.10
129.		874	3.38
130.		875	1.44
131.		876	6.44
132.		877	6.28
133.		883	3.09
134.		884 भाग	1.84
135.		885	3.69
136.		886	5.44
137.		887	4.31
138.		888 भाग	4.48
139.		1015 भाग	3.66
140.		1016	14.95
141.		1017	6.39
142.		1018 भाग	8.17
143.		1019	6.63
144.		1020	14.01
145.		1021	25.77
146.		1022	9.46
147.		1023	14.51
148.		1033	1.73
149.		1034	3.52
150.		1035	3.18
151.		1036	2.21
152.		1037	2.38
153.		1039 भाग	12.17
154.		1053	7.99
155.		1054 भाग	1.62
156.		1057 भाग	0.53
157.		1061	7.18
158.		1062 भाग	3.57
159.		1063	2.48
160.		1065 भाग	0.85
161.		1066 भाग	0.40
162.		1091	0.92
163.		1092	1.27
164.		1093	2.28
165.		1094 भाग	5.13
166.		1095 भाग	0.67
167.		1096	0.70

168.		1097	0.33
169.		1098	0.21
170.		1099	0.34
171.		1100	0.32
172.		1101	0.70
173.		1103 भाग	7.08
174.		1104	5.06
175.		1105	12.45
176.		1106	2.02
177.		1107	22.87
178.		1108	3.27
179.		1109 भाग	1.42
180.		1110	5.71
181.		1111	1.73
182.		1112	1.13
183.		1113	1.35
184.		1114	3.64
185.		1115	2.77
186.		1116	3.73
187.		1117	3.19
188.		1118	3.43
189.		1122	14.96
190.		1123	3.19
191.		1124	0.93
192.		1125	2.30
193.		1126	1.56
194.		1127	1.13
195.		1128	1.13
196.		1129	1.35
197.		1131	5.37
198.		1032 भाग	5.12
199.		1133	1.82
200.		1134	4.33
201.		1135	3.82
202.		1136	4.22
203.		1137	8.94
204.		1139	5.68
205.		1140	4.39
		कुल	1006.96 हेक्टेयर

(ii) केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 की प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :-

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	मै. इंडियाबुल्ज इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

(iii) केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त क्षेत्र विशिष्ट विशेष जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एक. 2/663/2006-एसईजेड]

अनिल मुन्नीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2009

S.O. 2707(E).— WHEREAS M/s. Indiabulls Industrial Infrastructure Limited, a private organisation in the State of Maharashtra, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), to set up a multi product Special Economic Zone at villages Musalgaon and Gulvanch, Taluka Sinnar, District Nasik in the State of Maharashtra;

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above Special Economic Zone on the 25th June, 2007;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones, Act 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006:-

(i) the Central Government hereby notifies the following area at villages Musalgaon and Gulvanch, Taluka Sinnar, District Nasik in the State of Maharashtra, comprising of the following Survey/Gat numbers and the area given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely:-

TABLE

Serial No.	Name of the village	Survey/Gat Numbers	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUSALGAON	969 Part	4.09
2.		971 Part	3.52
3.		972	1.12
4.		973	2.04
5.		974 Part	3.34
6.		975	5.49
7.		976	1.53
8.		977 Part	1.61

9.		979	2.87
10.		981	4.58
11.		982	4.20
12.		984 Part	2.90
13.		985	2.22
14.		987	4.96
15.		989	25.84
16.		990	13.84
17.		991	6.83
18.		992	5.66
19.		993	7.33
20.		994/1	1.60
21.		994/2	1.59
22.		995	17.27
23.		996	17.88
24.		997	5.08
25.		998 Part	0.47
26.		1007	9.71
27.		1008	15.93
28.		1009	5.83
29.		1010	5.47
30.		1013	26.71
31.		1014/1	1.90
32.		1014/2	1.90
33.		1014/3	1.90
34.		1014/4	1.88
35.		1015	3.56
36.		1016	2.97
37.		1017	3.39
38.		1018	3.39
39.		1019 Part	2.67
40.		1020	3.93
41.		1021	0.89
42.		1022	0.88
43.		1023	0.81
44.		1024	4.17
45.		1026	1.73
46.		1027	1.51
47.		1028	1.91
48.		1029	4.14
49.		1030	2.89
50.		1031	1.42

3881 GI/09-2

51.		1032	1.38
52.		1033	0.85
53.		1034	1.21
54.		1035	4.42
55.		1036 Part	4.14
56.		1037	1.76
57.		1038	1.63
58.		1039 Part	8.69
59.		1040	7.72
60.		1041 Part	2.51
61.		1054	16.87
62.		1060 Part	1.65
63.		1062	15.68
64.		1069	6.74
65.	GULVANCH	656	3.58
66.		658	3.55
67.		659	10.09
68.		660	15.33
69.		661	12.69
70.		682	2.14
71.		683	3.66
72.		684	1.09
73.		685	2.55
74.		686	3.52
75.		688	17.59
76.		702 Part	14.81
77.		703	12.18
78.		704	10.86
79.		705	5.14
80.		706	8.80
81.		707 Part	6.90
82.		708	15.10
83.		709	7.09
84.		710	14.47
85.		711	2.52
86.		712	7.44
87.		713	4.61
88.		714	0.84
89.		715	3.21
90.		716	4.05
91.		717	3.31
92.		718 Part	4.34

93.		719	3.54
94.		720	3.88
95.		721	11.57
96.		722	1.22
97.		723	1.24
98.		725	2.15
99.		726	2.54
100.		727	0.14
101.		729	1.51
102.		730	1.41
103.		731	1.56
104.		733	10.89
105.		742	6.11
106.		745 Part	2.07
107.		746 Part	3.82
108.		766	1.46
109.		853	1.52
110.		854	0.42
111.		855	3.36
112.		856	0.14
113.		857 Part	5.24
114.		859	4.34
115.		860	3.04
116.		861	3.28
117.		862	3.09
118.		863	2.46
119.		864	3.16
120.		865	1.22
121.		866	1.15
122.		867	3.25
123.		868	4.26
124.		869	8.35
125.		870	7.62
126.		871	0.51
127.		872	0.58
128.		873	1.10
129.		874	3.38
130.		875	1.44
131.		876	6.44
132.		877	6.28
133.		883	3.09
134.		884 Part	1.84

135.		885	3.69
136.		886	5.44
137.		887	4.31
138.		888 Part	4.48
139.		1015 Part	3.66
140.		1016	14.95
141.		1017	6.39
142.		1018 Part	8.17
143.		1019	6.63
144.		1020	14.01
145.		1021	25.77
146.		1022	9.46
147.		1023	14.51
148.		1033	1.73
149.		1034	3.52
150.		1035	3.18
151.		1036	2.21
152.		1037	2.38
153.		1039 Part	12.17
154.		1053	7.99
155.		1054 Part	1.62
156.		1057 Part	0.53
157.		1061	7.18
158.		1062 Part	3.57
159.		1063	2.48
160.		1065 Part	0.85
161.		1066 Part	0.40
162.		1091	0.92
163.		1092	1.27
164.		1093	2.28
165.		1094 Part	5.13
166.		1095 Part	0.67
167.		1096	0.70
168.		1097	0.33
169.		1098	0.21
170.		1099	0.34
171.		1100	0.32
172.		1101	0.70
173.		1103 Part	7.08
174.		1104	5.06
175.		1105	12.45
176.		1106	2.02

177.		1107	22.87
178.		1108	3.27
179.		1109 Part	1.42
180.		1110	5.71
181.		1111	1.73
182.		1112	1.13
183.		1113	1.35
184.		1114	3.64
185.		1115	2.77
186.		1116	3.73
187.		1117	3.19
188.		1118	3.43
189.		1122	14.96
190.		1123	3.19
191.		1124	0.93
192.		1125	2.30
193.		1126	1.56
194.		1127	1.13
195.		1128	1.13
196.		1129	1.35
197.		1131	5.37
198.		1032 Part	5.12
199.		1133	1.82
200.		1134	4.33
201.		1135	3.82
202.		1136	4.22
203.		1137	8.94
204.		1139	5.68
205.		1140	4.39
		TOTAL	1006.96 hectares

(ii) the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson ex officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member <i>ex officio</i> ;

3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member <i>ex officio</i> ;
4.	Commissioner of Customs or Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member <i>ex officio</i> ;
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Maharashtra	Member <i>ex officio</i> ;
8.	Representative of M/s. Indiabulls Industrial Infrastructure Limited (Developer of the zone)	Special invitee.

(iii) the Central Government hereby appoints the 27th day of October, 2009 as the date from which the above sector specific Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 2/663/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.